

# भारत का राजपत्र The Gazette of India


असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY



सं. 818 ]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 17, 2002/भाद्र 26, 1924

No. 818 ]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 17, 2002/BHADRA 26, 1924

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

( वाणिज्य विभाग )

( रबड़ नियंत्रण )

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 सितम्बर, 2002

का.आ. 1006(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, रबड़ नियम, 1955 के नियम 3 के उपनियम (3) और नियम 4 के साथ पठित रबड़ अधिनियम, 1947 (1947 का 24) की धारा 4 की उपधारा (3) के खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिसूचना सं. का. आ. 767(अ) तारीख 22 अगस्त, 2000 द्वारा श्री जॉर्ज जॉन, प्रबंध निदेशक, मै. थमरपल्ली रबड़ कंपनी लि., कोट्टायम, (केरला राज्य में प्रचुर उत्पादकों द्वारा निर्वाचित) की नियुक्ति को रबड़ बोर्ड के सदस्य के रूप में अधिसूचित किया था;

और तारीख 24-4-2002 को उनकी मृत्यु के परिणामस्वरूप और रबड़ बोर्ड में एक आकस्मिक रिक्ति हो गई है;

और केरला राज्य में प्रचुर उत्पादकों ने श्री ए. वी. जॉर्ज, मै. थमरपल्ली रबड़ कंपनी लि. अंचेरिल बैंक बिल्डिंग, कोट्टायम के निदेशक और नाम निर्देशिनी का, उक्त नियमों के नियम 3 के उपनियम (3) के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (3) के खंड (ग) के अनुसरण में रबड़ बोर्ड के सदस्य के रूप में निर्वाचित किया है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, रबड़ नियम, 1955 के नियम 3 के उपनियम (3) और नियम 4 के साथ पठित रबड़ अधिनियम, 1947 (1947 का 24) की धारा 4 की उपधारा (3) के खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री ए. वी. जॉर्ज को, रबड़ बोर्ड के सदस्य के रूप में अधिसूचित करती है और उस प्रयोजन के लिए यह निदेश देती है कि भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग की अधिसूचना सं. का. आ. 767(अ) तारीख 22 अगस्त, 2000 में निम्नलिखित और संशोधन किया जाएगा, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, क्रम सं. 7 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“7. श्री ए. वी. जॉर्ज, मै. थमरपल्ली रबड़ कंपनी लि., वह, 21 अगस्त, 2003 तक सदस्य के रूप में पद धारण करेंगे।”

अंचेरिल बैंक बिल्डिंग, कोट्टायम का निदेशक और नाम निर्देशिनी

[ फा. सं. 1/1/99-संयंत्र (सी) ]

एल. वी. सप्ताक्रषि, अतिरिक्त सचिव

पाद टिप्पणी:— मुख्य अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप खण्ड (ii), दिनांक 22 अगस्त, 2000 में का.आ. 767(अ) के तहत और बाद का संशोधन दिनांक 26-4-2001 के का.आ. 369(अ) के तहत प्रकाशित किए गए थे।

## MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(RUBBER CONTROL)

## NOTIFICATION

New Delhi, the 16th September, 2002

**S.O. 1006(E).**—Whereas the Central Government, in exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (3) of Section 4 of the Rubber Act, 1947 (24 of 1947) read with sub-rule (3) of rules 3 and 4 of the Rubber Rules, 1955, notified the appointment of Shri George John, Managing Director of M/s. Thamarappally Rubber Company Limited, Kottayam (elected by the large growers from the State of Kerala) as member of the Rubber Board vide notification number S.O. 767 (E) dated 22nd August, 2000.

And, whereas, consequent upon his death on 24-4-2002 and a casual vacancy has arisen in the Rubber Board:

And, whereas, the large growers from the State of Kerala have elected Shri A. V. George, Director and nominee of M/s. Thamarappally Rubber Company Limited, Ancheril Bank Building, Kottayam in pursuance of clause (c) of sub-section (3) of Section 4 of the said Act read with sub-rule (3) of rule 3 of the said Rules as member of the Rubber Board:

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (3) of Section 4 of the Rubber Act, 1947 (24 of 1947), read with sub-rule (3) of rule 3 and rule 4 of the Rubber Rules, 1955, the Central Government hereby notifies Shri A. V. George as member of the Rubber Board and for that purpose directs that the following further amendment shall be made in the notification of the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry, Department of Commerce number S.O. 767(E) dated the 22nd August 2000, namely :—

In the said notification, for serial number 7 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely :—

“7. Shri A. V. George,  
Director and nominee of  
M/s. Thamarappally Rubber Company Limited,  
Ancheril Bank Building,  
Kottayam

He shall hold office as a member upto 21st August, 2003 ”

[F. No. 1/1/99-Plant (C)]

L. V. SAPTHARISHI, Addl. Secy.

**Foot Note :** Principal Notification published vide S.O. 767(E) dated the 22nd August, 2000, Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) and subsequent amendment vide S.O. 369(E) dated 26-4-2001.